



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 29—अगस्त 4, 2006 (श्रावण 7, 1928)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 29—AUGUST 4, 2006 (SRAVANA 7, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय
(थल सेना विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2006

सं. 377, दिनांक 26 जून 2006—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना
विशेष सूची
क्वचित कोर

नाथब रिसालदार धर्मशिक्षक के रैंक में
गिरीश चन्द्रा पान्डे (जेसी-240686वाई), 25 सितम्बर 2004
संजय कुमार (जेसी-240687एफ), 25 सितम्बर 2004
योगेश कुमार जोशी (जेसी-240688के), 25 सितम्बर 2005
विजय कुमार शर्मा (जेसी-241227एम), 11 जून 2005
कुलबीर सिंह खन्ना (जेसी-241228पी), 11 जून 2005
सुखविन्दर सिंह (जेसी-241229एक्स), 11 जून 2005
गुरचरण पाल सिंह (जेसी-241230ए), 20 अगस्त 2005
शिव शंकर त्रिपाठी (जेसी-241401एन), 26 नवम्बर 2005

जोस थोमस
अवर सचिव

सं. 378, दिनांक 29 जुलाई 2006—राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष
नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना
(विशेष आयोग)

निम्नलिखित आठ एन.सी.ओज को सेना अनुदेश 5/97 के अन्तर्गत
संलिखित सेना सेवा में दिनांक 10 दिसम्बर 2005 से लेफ्टिनेन्ट के पद
पर विशेष आयोग प्रदान किया जाता है :--

सैन्य सं., पैतृक आर्म्स/सर्विस, नाम, एससी नम्बर एवं आवंटित
सर्विस/आर्म्स

9512700डब्ल्यू, आईसी, राम गोपाल सिंह (एससी-00494पी), एएससी
9512705पी, आईसी, जितेन्द्र सिंह राना (एसी-00495एक्स), ईएमई
15464852डब्ल्यू, एसी पंछी राम (एससी-00496ए), एओसी
9089477पी, इन्फैन्ट्री, सत पौल (एससी-00497एच), एओसी
14809025एल, इण्ट कोर्पस, लक्ष्मण सिंह (एससी-00498एल),
एओसी
9512458एम, आईसी, श्री विवेक कुमार (एससी-00499एन), आर्य

14406177एन, एएडी, कुलदीप कुमार भनोट (एससी-00500एक्स),
आर्टि

7431178एम, इण्टर्कोर्स वी जी सुर्य प्रभा (एससी-00501ए), एएससी

चन्द्र शेखर

ले. कर्नल

सह सेना सचिव/एमएस-8बी

(रक्षा उत्पादन विभाग)

सं. 379, दिनांक 29 जून 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्तियां
करते हैं :--

1. गु.आ.नि (कपड़ा एवं मिल), कानपुर में श्री महेन्द्र सिंह की नियुक्ति 26 अप्रैल 2005 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ।
2. व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), कोलकाता में श्री जी. सत्यनारायण सिन्हा की नियुक्ति 30 सितंबर 2005 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ।
3. गु.आ.नि (धातु), इच्छपुर, में श्री कनद साहा की नियुक्ति 29 अगस्त 2005 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ।
4. गु.आ.नि (धातु), इच्छपुर, में श्री अशोक कुमार की नियुक्ति 30 जनवरी 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ।
5. गु.आ.नि (धातु), इच्छपुर, में श्री पी. सी. झा की नियुक्ति 28 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ।
6. गु.आ.नि (धातु), इच्छपुर, में श्री नीलप्पू कृष्णा मूर्ति की नियुक्ति 19 जनवरी 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ।
7. गु.आ.नि (धातु), इच्छपुर, में श्री सुबीर राय चौधरी की नियुक्ति 27 जनवरी 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ।
8. व.गु.आ.स्था. (धातु), इच्छपुर, में श्री कामेश्वर यादव की नियुक्ति 28 नवम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ।
9. व.गु.आ.स्था. (आयुद्ध), सिकंदराबाद में श्री ए. राधाकृष्णन की नियुक्ति 16 जनवरी 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ।
10. गु.आ.नि (कपड़ा एवं मिल), कानपुर, में श्री सुदीपामय चक्रवर्ती की नियुक्ति 21 सितम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ।

11. गु.आ.नि (इंजीनियरी उपस्कर), पुणे में श्री डा. गुरुमुख दास की नियुक्ति 12 जनवरी 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ।
12. गु.आ.नि (आयुद्ध), पुणे में श्री सतीश साम्भप्पा मुंगसे की नियुक्ति 27 जनवरी 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ।
13. व.गु.आ.स्था. (आयुद्ध), त्रिची में श्री प्रभाकर बास्सुला की नियुक्ति 27 फरवरी 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ।

सुभाष चंद

अवर सचिव

सं. 380, दिनांक 26 जून 2006--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संजर्ग के निम्नलिखित ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों की नियुक्ति उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि तक या नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक या अगले आदेश जारी होने तक इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर निजी सचिव (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का विलयित ग्रेड "क" और "ख") के पद पर और आगे बढ़ाते हैं :--

क्रम	अधिकारी का नाम	से	तक
सं.			
	सर्वश्री		
1.	जे. पी. माथुर	1.6.2006	31.12.2006
2.	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	1.6.2006	31.12.2006
3.	नरेन्द्र चड्ढा	1.6.2006	31.12.2006
4.	हरविन्दर चावला	1.6.2006	31.12.2006

वी. सरस्वती

उप सचिव

थल सेना विभाग

सं. 381, दिनांक 27 जून 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुरिन्दर बहादुर सिंह (जेसी-225645एक्स), 01 अक्टूबर
2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार केश बहादुर गुर्रैग (जेसी-419966एच), 28 फरवरी
2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुदर्शन प्रसाद (जेसी-418623ए), 20 मार्च 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 दी जाती है)

नायब सूबेदार अनुपबीर लांबा (जेसी-419967एल), 28 फरवरी 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सवर सिंह (जेसी-419968एन), 01 मार्च 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-419595एल), 17 मार्च 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दिल बहादुर थापा (जेसी-419969डब्ल्यू), 01 मार्च 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जे फ्रांसीस (जेसी-419718एम), 01 अप्रैल 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 फरवरी 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मेवा खंबा सिंगा (जेसी-419971एन), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार मनोवर अली खान (जेसी-419277एफ), 03 अप्रैल 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राम पाल सिंह (जेसी-419547एल), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार गुरु दयाल सिंह (जेसी-419601एन), 04 अप्रैल 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) बलबीर सिंह (जेसी-419262वाई), 02 जनवरी 2006 *

*(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) राम सिंह (जेसी-419279एम), 06 जनवरी 2006 *

*(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) यशवंत सिंह (जेसी-419280एफ), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) पवन चंद (जेसी-419302पी), 01 मार्च 2006

सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एस के टी) बिमल सिंह गुरूंग (जेसी-418927एक्स), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार परमजीत सिंह (14906418एल अब जेसी-420467ए), 01 फरवरी 2006

हवलदार भजन चन्द (14903580एक्स अब जेसी-420468एच), 01 फरवरी 2006

हवलदार सुखदेव सिंह (14901805डब्ल्यू अब जेसी-420469एल), 01 फरवरी 2006

हवलदार हरि ओम सिंह (2988616डब्ल्यू अब जेसी-420470ए), 08 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार रामफल सिंह (14906678डब्ल्यू अब जेसी-420471एच), 01 फरवरी 2006

हवलदार हेम राज (14905092एन अब जेसी-420472एल), 27 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार समुन्दर सिंह सिरान (14906822ए अब जेसी-420473एन), 03 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार अखिल कुमार भूनिया (14903442डब्ल्यू अब जेसी-420474डब्ल्यू), 17 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार मलकीत सिंह (14907340एक्स अब जेसी-420475वाई), 09 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार करन सिंह (14907003एच अब जेसी-420476एफ), 17 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार अजमेर सिंह (14906429एक्स अब जेसी-420477के),
13 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार बाबु राम (14905267एल अब जेसी-420478एम),
10 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार राम धारी (14906812डब्ल्यू अब जेसी-420479पी),
15 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार एस पी पलानी चामी (14905052एम अब जेसी-420480के),
04 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार हरफूल सिंह (14904931एल अब जेसी-420481एम),
31 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार प्रभात सिंह (14906363एम अब जेसी-420482पी),
01 मार्च 2006 *

हवलदार ओम प्रकाश (14908736एन अब जेसी-420483एक्स), 03
मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार चन्द्र के आर देवरी (14906350पी अब जेसी-420484ए),
07 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार उमेद सिंह गुर्जर (2981328एच अब जेसी-420485एच),
17 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार मान सिंह (14905326एम अब जेसी-420486एल), 01 मार्च
2006

हवलदार थंगजालम गांगटे (14906016एन अब जेसी-420487एन),
17 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार प्रकाश चन्द ठाकुर (14906486वाई अब
जेसी-420488डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

हवलदार वीरेन्द्र सिंह (14907760एक्स अब जेसी-420489वाई), 01
मार्च 2006

हवलदार प्रेम सिंह (14907949पी अब जेसी-420490एन), 09 मार्च
2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार रामजी सिंह (2981465ए अब जेसी-420491डब्ल्यू),
20 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 03 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार गोपाल सिंह (14905696एम अब जेसी-420492वाई),
01 अप्रैल 2006

हवलदार अमर सिंह (14909627एन अब जेसी-420493एफ),
04 अप्रैल 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश चन्द (14909125एल अब जेसी-420494के), 04
अप्रैल 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

हवलदार सुनिल कुमार (14906725एम अब जेसी-420441एल),
13 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार विद्या लाल (14906484एन अब जेसी-420442एन),
13 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार राधा कृष्ण पिल्लै टी (14904447एफ अब
जेसी-420443डब्ल्यू), 21 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार लाला राम (14905355एफ अब जेसी-420444वाई),
17 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार ददन सिंह (14904909एच अब जेसी-420444एफ),
30 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 02 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार हेम बहादुर थापा (14905164एम अब जेसी-420446के),
29 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार कमल राय (14905717एक्स अब जेसी-420447एम),
05 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार जग बहादुर गुरूंग (14909217एक्स अब जेसी-420448पी),
28 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार कुलदीप सिंह (14906888डब्ल्यू अब जेसी-420449एक्स),
17 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार अशोक बहादुर (14909521एफ अब जेसी-420450एम),
29 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार भजन सिंह (14909358एम अब जेसी-420451पी),
02 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार बलबीर सिंह (14908272एफ अब जेसी-420452एक्स),
01 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 24 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार पुरण सिंह गुरूंग (14906952एच अब जेसी-420453ए),
09 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार सावंत चन्द्रकान्त हिन्दूराव (14904948एफ अब
जेसी-420454एच), 26 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार के उधीराचा मणि (14910693एच अब जेसी-420455एल),
17 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार अमर चन्द्र विधार्थी (14905896एच अब जेसी-420456एन),
21 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार जगत सिंह (14906809डब्ल्यू अब जेसी-420457डब्ल्यू),
25 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार कृष्णा सिंह (14908498एम अब जेसी-420458वाई),
25 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार चन्द्र शेखर (14909258एफ अब जेसी-420459एफ),
21 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार रवि कुमार (14905627डब्ल्यू अब जेसी-420460डब्ल्यू),
23 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार बंसी लाल बिशनोई (14909641ए अब जेसी-420461वाई),
21 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार देश राज (14905920एन अब जेसी-420462एफ), 17 मार्च
2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार रेशम लाल (14906287एल अब जेसी-420463के),
01 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार चोब सिंह (14909052के अब जेसी-420464एम),
21 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है।)

हवलदार रमेश चन्द्र भट्ट (14910008एम अब जेसी-420465पी),
21 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार शिर्के मोहन बाजीराव (14907005एन अब
जेसी-420466एक्स), 09 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

क्वचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार भगवान सिंह (सं. 1074329पी अब जेसी-241437एफ),
01 दिसम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

दफादार सत्य देव (सं. 1074363पी अब जेसी-241461एच),
21 नवम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार विनोद कुमार सिंह (सं. 1077566के अब जेसी-241482वाई),
18 अक्टूबर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार शिशुपाल सिंह (सं. 1071465ए अब जेसी-241483एफ),
07 अक्टूबर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार अखिलेश कुमार सिंह गौतम (सं. 1077436एफ अब जेसी-241494एन), 04 नवम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार महेन्द्रा मेधी (सं. 1068169के अब जेसी-241497एफ),
26 अक्टूबर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

दफादार मोहम्मद साददीक खॉन (सं. 1078923एन अब जेसी-241498के), 04 नवम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

दफादार अमानुल्ला खॉन (सं. 1078933एक्स अब जेसी-241499एम),
04 नवम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

दफादार ए रामा दास (सं. 1069194पी अब जेसी-241501वाई),
22 नवम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार राधा रमन मंडल (सं. 1069555एच अब जेसी-241512एल),
02 दिसम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार मान सिंह (सं. 1069593वाई अब जेसी-241513एन),
06 दिसम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

दफादार चान्देश्वर सिंह (सं. 1070632वाई अब जेसी-241514डब्ल्यू),
05 दिसम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

दफादार मांगेय सिंह (सं. 1069961एच अब जेसी-241515वाई),
01 दिसम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

दफादार एम मलार मारन (सं. 1068942एल अब जेसी-241516एफ),
01 दिसम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

दफादार प्रदीप कुमार मंगोत्रा (सं. 1076874एक्स अब जेसी-241518एम), 03 दिसम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

दफादार बाबू लाल (सं. 1077535के अब जेसी-241519पी),
24 नवम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

दफादार जगजीत सिंह (सं. 1077188डब्ल्यू अब जेसी-241520के),
16 नवम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।)

दफादार विनोदा नन्द सिंह (सं. 1069059एफ अब जेसी-241523एक्स),
01 दिसम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार पी देन्निसेन (सं. 1072211पी अब जेसी-241524ए),
14 नवम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार देवदासन कल्लावेदूडी (सं. 1072203डब्ल्यू अब जेसी-241525एच), 14 नवम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार हिरजाप सिंह (सं. 1067178वाई अब जेसी-241528डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2005

दफादार राज कुमार (सं. 1071384ए अब जेसी-241529वाई),
01 दिसम्बर 2005

दफादार सुभाष नामदेव जामनिक (सं. 1069604ए अब जेसी-241530एन), 01 दिसम्बर 2005

दफादार मलकियत सिंह (सं. 1077775एफ अब जेसी-241533एफ),
02 दिसम्बर 2005*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार विमालन व्ही आर (सं. 1072225पी अब जेसी-241534के),
07 दिसम्बर 2005*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार उदय कुमार ओ (सं. 1072220डब्ल्यू अब जेसी-241535एम),
07 दिसम्बर 2005*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार मेवा सिंह (सं. 1073453के अब जेसी-241532वाई),
06 दिसम्बर 2005*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार बालाजी (सं. 1070860एफ अब जेसी-241537एक्स),
26 दिसम्बर 2005*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार मुकुन्द कुमार मिश्रा (सं. 1068963एफ अब जेसी-241542एच), 24 दिसम्बर 2005*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

दफादार मंगरा हेमराम (सं. 1069675एफ अब जेसी-241547एफ),
04 जनवरी 2006*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार सुखबीर सिंह (सं. 1078478ए अब जेसी-241553पी),
03 जनवरी 2006*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार प्रीतम कुमार डेका (सं. 1069813एक्स अब जेसी-241555ए),
04 जनवरी 2006*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार सावलिया राय (सं. 1069979वाई अब जेसी-241558एन),
04 जनवरी 2006*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार पी जोगी नायडू (सं. 1075169एम अब जेसी-241560एल),
30 दिसम्बर 2005*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार रूक्मानन्द (सं. 1069474एच अब जेसी-241561एन),
31 दिसम्बर 2005*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार जय शंकर दुबे (सं. 1070330एम अब जेसी-241572ए),
04 जनवरी 2006*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार विल्सन बारा (सं. 1069134ए अब जेसी-241574एल),
15 दिसम्बर 2005*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार सतन्द्रा कुमार बाना (सं. 1070222एच अब जेसी-241576डब्ल्यू), 02 जनवरी 2006*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार भोजवीर (सं. 1074732एफ अब जेसी-241577वाई),
30 दिसम्बर 2005*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार दलजीत सिंह (सं. 1079500एम अब जेसी-241578एफ),
30 दिसम्बर 2005*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार गजेन्द्रा सिंह (सं. 1071696डब्ल्यू अब जेसी-241579के),
30 दिसम्बर 2005*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार कृपाल सिंह (सं. 1072262एच अब जेसी-241580वाई),
30 दिसम्बर 2005*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार दिनेश कुमार पाल (सं. 1070384एन अब जेसी-241582के),
02 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार गुमान सिंह (सं. 1071110पी अब जेसी-241583एम),
05 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार विद्या रत्ना द्विवेदी (सं. 1070250पी अब जेसी-241584पी),
05 जनवरी 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार गोपाल सिंह (सं. 1077754एल अब जेसी-241586ए),
01 जनवरी 2006

दफादार सतपाल सिंह (सं. 1078578एल अब जेसी-241587एच),
05 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार मीर जहाँगीर अली (सं. 1073799एन अब जेसी-241589एन),
19 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

दफादार सतीश कुमार सिंह (सं. 1070364ए अब जेसी-241592एन),
18 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

दफादार ठोंबरे हनुमन्त तुकाराम (सं. 1073131के अब जेसी-241596के), 12 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

दफादार भाग चन्द (सं. 1081183पी अब जेसी-241599एक्स),
12 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार रमेश चन्द्रा (सं. 1081047वाई अब जेसी-241600एफ),
12 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार गोबिन्द चन्द्रा साहु (सं. 1067892डब्ल्यू अब जेसी-241601के), 18 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार मोहिन्दर सिंह (सं. 1070830के अब जेसी-241611एन),
09 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार कश्मीर सिंह (सं. 1071524एफ अब जेसी-241612डब्ल्यू),
09 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार देव नायक उपाध्याय (सं. 1069132पी अब जेसी-241616एम),
12 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार चत्तर पाल सिंह (सं. 1076934एफ अब जेसी-241617पी),
12 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार रुद्रामय चौधरी (सं. 1071135एफ अब जेसी-241618एक्स),
09 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार रामायन प्रसाद गुप्ता (सं. 1069405एम अब जेसी-241447डब्ल्यू), 05 अगस्त 2005

दफादार रामदेव जाट (सं. 1074759वाई अब जेसी-241551के),
05 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार सुरेन्द्रा नाथ स्वेन (सं. 1070703पी अब जेसी-241552एम),
27 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार दिलबाग सिंह (सं. 1070005एम अब जेसी-241585एक्स),
05 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार बिरेन्द्रा सिंह (सं. 1071796एफ अब जेसी-241590एच),
20 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

दफादार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 1074105पी अब जेसी-241594वाई), 25 फरवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार ब्रिज नन्दन (सं. 1071734एफ अब जेसी-241597एम),
14 फरवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार सुरेश पाठक (सं. 1072548एक्स अब जेसी-241598पी),
20 जनवरी 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार महेन्द्रा सिंह भदौरिया (सं. 1073505पी अब जेसी-241608एन),
20 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार किशन लाल बलाई (सं. 1071917एक्स अब जेसी-241610एल), 24 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार नरेन्द्रा कुमार (सं. 1073101एम अब जेसी-241614एफ),
20 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार रजनी कान्ता मेधी (सं. 1071779एफ अब जेसी-241628एफ),
20 फरवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार विजय सिंह (सं. 1076651ए अब जेसी-241642एन),
02 मार्च 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार एम विश्वनाथन (सं. 1074011एक्स अब जेसी-241643डब्ल्यू), 11 फरवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार राम मेहर सिंह (सं. 1074359एम अब जेसी-241644वाई),
17 फरवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार रवीन्द्र सिंह (सं. 1081079एफ अब जेसी-241646के),
16 फरवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार बिरेन्द्र औरान (सं. 1072256पी अब जेसी-241648पी),
11 फरवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार लक्ष्मण ओलाक्करन (सं. 1071515ए अब जेसी-241650एम), 11 फरवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार मोहम्मद फूल हस्सन (सं. 1072850डब्ल्यू अब जेसी-241651पी),
24 फरवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार विनयन केपी (सं. 1071927एफ अब जेसी-241652एक्स),
01 मार्च 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार रघुबीर सिंह (सं. 1080934वाई अब जेसी-241653पी),
03 मार्च 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार रुकम पाल (सं. 1071325एन अब जेसी-241655एल),
27 फरवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 फरवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार राग कुमार माहली (सं. 1071792एल अब जेसी-241658पी),
01 मार्च 2006 *

दफादार हरनाथ सिंह (सं. 1073389एक्स अब जेसी-241659एफ),
01 मार्च 2006 *

दफादार शिश राम (सं. 1070757डब्ल्यू अब जेसी-241660डब्ल्यू),
01 मार्च 2006 *

दफादार मोहन लाल (सं. 1077789एफ अब जेसी-241661वाई),
01 मार्च 2006

दफादार के एन के यशवन्त (सं. 1070529एन अब जेसी-241662एफ), 03 मार्च 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

दफादार सुखवीर सिंह (सं. 1070466डब्ल्यू अब जेसी-241663के),
01 मार्च 2006 *

दफादार राम पाल (सं. 1070683एम अब जेसी-241664एम),
01 मार्च 2006 *

दफादार मोहरी लाल ज्युथरिया (सं. 1071986एन अब जेसी-241665पी), 03 मार्च 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है।)

दफादार सुसान्त कुमार घोष (सं. 1071871ए अब जेसी-241666एक्स), 03 मार्च 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है।)

दफादार पुरशोत्तम (सं. 1071803एम अब जेसी-241667ए), 01 मार्च 2006

दफादार चक्र पानी गौतम भान्जी (सं. 1070545एल अब जेसी-241669एल), 02 मार्च 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है।)

दफादार अशोक सिंह तोमर (सं. 1077119ए अब जेसी-241670ए), 02 मार्च 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है।)

दफादार श्याम लाल (सं. 1072277एल अब जेसी-241545डब्ल्यू), 14 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है।)

दफादार कन्हैया ओझा (सं. 1069201ए अब जेसी-241554एक्स), 18 दिसम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

दफादार माम चन्द (सं. 1071783के अब जेसी-241556एच), 22 दिसम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

दफादार मुंढे नारायण जनार्धन (सं. 15466596एल अब जेसी-241559डब्ल्यू), 24 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

दफादार मोहिन्दर सिंह (सं. 1070792वाई अब जेसी-241559ए), 12 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

दफादार अमरीक सिंह (सं. 1071454एन अब जेसी-241570पी), 12 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

दफादार हरभजन सिंह (सं. 1071708ए अब जेसी-241581एफ), 30 दिसम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

दफादार रतन सिंह (सं. 1076898एफ अब जेसी-241588एल), 12 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।)

दफादार श्यामबीर सिंह (सं. 1075634एन अब जेसी-241591एल), 17 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।)

दफादार राम दर्शन सिंह (सं. 1070716एम अब जेसी-241595एफ), 12 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है।)

दफादार श्यामल चटर्जी (सं. 1071012पी अब जेसी-241602एम), 12 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

दफादार उन्नी कृष्णा पिल्लै एस (सं. 1071036वाई अब जेसी-241603पी), 12 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

दफादार बदाम पुडी वेंकटेश्वरा राव (सं. 1071410डब्ल्यू अब जेसी-241604एक्स), 12 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

दफादार बलदेव सिंह (सं. 1077344पी अब जेसी-241605ए), 13 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

दफादार वीर सिंह (सं. 1077978एल अब जेसी-241606एच), 13 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

दफादार गोपाल सिंह (सं. 1069767एन अब जेसी-241607एल), 20 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

दफादार देवकरन सिंह (सं. 1071081एल अब जेसी-241609डब्ल्यू),
13 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 18 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

दफादार झा धर्मेन्द्रा सुरेन्द्रा (सं. 1071639पी अब जेसी-241615के),
17 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है।)

दफादार राजन पीके (सं. 1071614एच अब जेसी-241624एल),
28 जनवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।)

दफादार रणजीत सिंह कौडल (सं. 1069853वाई अब
जेसी- 241625एन), 22 दिसम्बर 2005 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

दफादार रविन्द्रा कुमार कुलहारी (सं. 1075370एक्स अब
जेसी-241626डब्ल्यू), 02 फरवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

दफादार छोटू राम (सं. 1070882ए अब जेसी-241631एफ), 22 जनवरी
2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 जनवरी 2006 से दी जाती है।)

दफादार अचल सिंह पुरोहित (सं. 1076093के अब जेसी-241632के),
08 फरवरी 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 15 जनवरी 2006 से दी जाती है।)

दफादार बलबीर सिंह (सं. 1067217एम अब जेसी-241633एम),
01 फरवरी 2006 *

दफादार भूदेव सिंह (सं. 1076528एफ अब जेसी-241634पी),
01 फरवरी 2006 *

दफादार शीश राम (सं. 1074741एच अब जेसी-241635एक्स),
01 फरवरी 2006 *

दफादार वेंकटेश एम (सं. 1072238एम अब जेसी-241636ए),
01 फरवरी 2006 *

दफादार रणजीत सिंह (सं. 1079541डब्ल्यू अब जेसी-241637एच),
01 फरवरी 2006 *

विशेष सूची

स्थाई रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार पंडित त्रिभुवन नारायण पांडेय (जेसी-236747एन),
10 फरवरी 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
13 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पंडित राजेश्वर पाठक (जेसी-236748डब्ल्यू),
16 फरवरी 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
13 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पंडित शशी धर मिश्रा (जेसी-236749वाई),
10 फरवरी 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
13 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पंडित अरविन्द पांडेय (जेसी-236750एन), 20
फरवरी 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
13 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पंडित सुरवेश कुमार पांडेय (जेसी-236751डब्ल्यू),
13 फरवरी 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
13 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पंडित अरूण शंकर शुक्ला (जेसी-418579एफ),
11 फरवरी 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
13 जनवरी 2006 से दी जाती है)

ह/-अपठनीय
अवर सचिव

संख्या 382, दिनांक 26 जून 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित
पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

तोपखाना रेजिमेंट

सब्सर्टेंटिव सूबेदार (जीडी) के पद में

नायब सूबेदार चूरीया राम (जेसी-260873वाई), 01 अक्टूबर 2003 *

नायब सूबेदार लक्ष्मी नारायण (जेसी-262567एच), 17 मई 2004/01
नवम्बर 2003 *

नायब सूबेदार एस श्रीनिवास (जेसी-263597एम), 19 दिसम्बर
2003/02 नवम्बर 2003 *

नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-261111एक्स), 06 नवम्बर 2004/
01 दिसम्बर 2003 *

नायब सूबेदार गोपा कुमार एस (जेसी-263580वाई), 28 अप्रैल
2004/17 दिसम्बर 2003 *

नायब सूबेदार सूरज नाथ पांडेय (जेसी-260856वाई), 21 जनवरी
2004/01 जनवरी 2004 *

नायब सूबेदार रामेश्वर दयाल (जेसी-263341के), 05 अप्रैल 2004/
01 जनवरी 2004 *

नायब सूबेदार तुलसी राम (जेसी-263502एफ), 13 अप्रैल 2004/01 जनवरी 2004 *

नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-263788एफ), 18 मार्च 2004/01 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार पडयल मनोहर शिवराम (जेसी-263584पी), 16 मार्च 2004/01 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार गोविन्दा सूर (जेसी-264283एक्स), 10 मई 2004/21 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-263388पी), 31 जनवरी 2005/08 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-264084के), 29 मार्च 2004/20 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-260836एस), 09 मार्च 2004/10 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार आय सवारी मुथ्यु (जेसी-263596के), 23 मार्च 2004/20 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार प्रेम पाल सिंह (जेसी-261323एच), 27 मार्च 2004/23 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार रामेन्द्रा नाथ दास (जेसी-264107ए), 17 अप्रैल 2004/29 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार विश्वनाथ यादव (जेसी-259141डब्ल्यू), 22 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार बनवारी लाल (जेसी-260802एक्स), 08 मई 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार हरीश चन्द (जेसी-261523एक्स), 26 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-263633एम), 07 अप्रैल 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार सम्पूर्णा नन्द (जेसी-264046एन), 07 अप्रैल 2004/03 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-261637के), 12 मई 2004/03 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार असीत सरकार (जेसी-262347वाई), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार विक्रमादित्य (जेसी-262344एल), 28 मार्च 2004/15 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार राज सिंह (जेसी-261647एन), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार सत्यनाथन यादव (जेसी-260750एम), 06 मई 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार मनी बालन पी (जेसी-261581एच), 03 मई 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार सुशील होंरो (जेसी-261005वाई), 06 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार वेम्कट (जेसी-262943एल), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार लाल बहादुर सिंह (जेसी-263439एक्स), 28 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार साई राम (जेसी-262903के), 05 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार तपन कुमार (जेसी-262603एच), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार मास्टर गावडें अशोक बाबाजी (जेसी-263131के), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार घोर पडे रामचन्द्र आनंदराव (जेसी-264112एल), 10 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार तारी राम (जेसी-263926एक्स), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार काम सिंह (जेसी-264161एन), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार गुरुमुख सिंह (जेसी-264742एल), 6 जून 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार करन सिंह (जेसी-261868ए), 25 अप्रैल 2004/15 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार वेद पाल (8030866एफ अब जेसी-268811एन), 15 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार नटराज एच (14492867वाई अब जेसी-268812डब्ल्यू), 02 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (14477593एफ अब जेसी-268813वाई), 16 दिसम्बर 2005/13 अक्टूबर 2005 *

हवलदार पुनवासी यादव (14482310वाई अब जेसी-268814एफ), 22 नवम्बर 2005/14 अक्टूबर 2005 *

हवलदार जरनेल सिंह (14481996वाई अब जेसी-268815के), 22 नवम्बर 2005/20 अक्टूबर 2005 *

हवलदार बलकार सिंह (14476096एल अब जेसी-268816एम), 10 दिसम्बर 2005/30 अक्टूबर 2005 *

हवलदार के एच ईन्द्रा कुमार सिंघा (14484414वाई अब जेसी-268817पी), 14 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005 *

हवलदार बिरबल राम रिचड (14366875एल अब जेसी-268818एक्स), 30 दिसम्बर 2006/05 नवम्बर 2005 *

हवलदार धमेश्वर राम (14363440एक्स अब जेसी-268819ए),
06 दिसम्बर 2005/17 नवम्बर 2005 *

हवलदार संतोख सिंह (14478716पी अब जेसी-268820पी),
29 जनवरी 2006/30 नवम्बर 2005 *

हवलदार सुभाष सिंह (14471046डब्ल्यू अब जेसी-268821एक्स),
12 जनवरी 2006/02 दिसम्बर 2005 *

बी एच एम अजित राम (15100222डब्ल्यू अब जेसी-268822ए), 16
दिसम्बर 2005

हवलदार दलीप सिंह यादव (15105488एम अब जेसी-268823एच),
11 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

बी एच एम एम डी तजुदीन (14474253एन अब जेसी-268824एल),
01 जनवरी 2006

हवलदार घन श्याम जोशी (14477992एल अब जेसी-268825एन),
14 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार अशोक कुमार (14374043वाई अब जेसी-268826डब्ल्यू),
01 फरवरी 2006

हवलदार रामालिंगम पी (14491727ए अब जेसी-268871एच),
17 फरवरी 2006/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार हरी चन्द चौधरी (14353191डब्ल्यू अब जेसी-268872एल),
28 दिसम्बर 2005/31 अक्टूबर 2005 *

हवलदार राजेन्द्र सिंह (14476107एम अब जेसी-268873एन),
31 दिसम्बर 2005/02 नवम्बर 2005 *

हवलदार रविन्द्र कुमार सिंह (14481069एलअबजेसी-268874डब्ल्यू),
07 फरवरी 2006/07 नवम्बर 2005 *

बी एच एम अशोक कुमार मिश्रा (14360005एक्स अब
जेसी-268875वाई), 14 फरवरी 2006/26 नवम्बर 2005 *

हवलदार शत्रुधन सिंह (14484497पी अब जेसी-268876एफ),
14 फरवरी 2006/26 नवम्बर 2005 *

हवलदार खोमन बी (14479049वाई अब जेसी-268877के),
25 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार रमेश लाल (14479777वाई अब जेसी-268878एम),
27 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

बी एच एम परमजीत सिंह (3383412वाई अब जेसी-268879पी), 07
फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार राधे शाम (14389459एन अब जेसी-268880के),
01 फरवरी 2006/11 दिसम्बर 2005 *

हवलदार गौतम पोरे (14370287पी अब जेसी-268881एम),
25 जनवरी 2006/21 दिसम्बर 2005 *

हवलदार नरेश कुमार (14481447वाई अब जेसी-268882पी),
02 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

बी एच एम मनोहर लाल (14479431पी अब जेसी-268883एक्स),
14 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

बी एच एम सियोरामा राम (14465835एम अब जेसी-268884ए),
17 फरवरी 2006/30 जनवरी 2006 *

आर एच एम ओम प्रकाश भगत (14490586के अब
जेसी-268885एच), 01 फरवरी 2006

हवलदार अबदेश कुमार (14360281ए अब जेसी-268886एल),
01 फरवरी 2006

आर एच एम होशियार सिंह यादव (15110700एच अब
जेसी-268887एन), 20 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

आर एच एम अमरजीत सिंह (14384922ए अब जेसी-268888डब्ल्यू),
21 फरवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

आर एच एम परम चन्द (15116570एफ अब जेसी-268889वाई),
27 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

आर एच एम सूरज पाल सिंह (15111098ए अब जेसी-268890एन),
25 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

आर एच एम बसलींग पाटेकर (14401550वाई अब
जेसी-268891डब्ल्यू), 23 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

आर एच एम जोगा सिंह (15101176वाई अब जेसी-268892वाई),
21 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

आर एच एम वी अप्पाराव (15122783एल अब जेसी-268893एफ),
23 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

(* ज्येष्ठता प्राप्त)

कोर ऑफ सिग्नल्स

स्थाई सूबेदार मेजर (वाई ऑफ एस) के रैंक में

सूबेदार भवानी सिंह शेखावत (जेसी-367879), 01 जनवरी 2006

सूबेदार बीर बहादुर सिंह (जेसी-367882एक्स), 16 जनवरी 2006

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

स्थाई सूबेदार मेजर (एफ ऑफ एस) के रैंक में

सूबेदार हुकम चन्द शर्मा (जेसी-225341ए), 02 जनवरी 2006

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-223786एम), 01 जनवरी 2006
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

स्थायी सूबेदार मेजर (ओ पी साईफर) के रैंक में

सूबेदार रमेश चन्द्र बिस्वल (जेसी-368139पी), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार राम बहादुर सिंह (जेसी-368427एफ), 01 फरवरी 2006

स्थायी सूबेदार मेजर (क्लर्क जी डी) के रैंक में

सूबेदार ससीन्द्रन के एस (जेसी-367315पी), 01 फरवरी 2006

स्थायी सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार निरंजन हलदर (जेसी-370432एल), 06 अक्टूबर 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार सालिक सिंह (जेसी-370453एफ), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार यशवंत सिंह (जेसी-370457एक्स), 03 दिसम्बर 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार दुर्गेश प्रसाद सिंह (जेसी-370463एल), 08 दिसम्बर 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार जुनुल मुन्दु (जेसी-370464एन), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार बन बिहारी मिश्रा (जेसी-369838एम), 23 जनवरी 2006

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार अश्वनी कुमार श्रीवास्तव (जेसी-369941एक्स), 08 जनवरी
2006

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार भारत सिंह (जेसी-369982एफ), 10 जनवरी 2006

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार आर पी चौधरी (जेसी-370436एफ), 30 जनवरी 2006

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार विश्वनाथ चक्रवर्ती (जेसी-370461ए), 01 जनवरी 2006

सूबेदार धरम पाल (जेसी-370470एफ), 07 जनवरी 2006

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार मिथेलेश्वर चौधरी (जेसी-370582एफ), 10 जनवरी 2006

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार नवीन कुमार अम्बस्था (जेसी-370593एन), 01 फरवरी 2006

सूबेदार अर्जुन बेहरा (जेसी-370599पी), 01 फरवरी 2006

सूबेदार अदूती आर के पी सत्यनारायणा (जेसी-370602के),
01 मार्च 2006

सूबेदार धरम बीर सिंह (जेसी-370608एल), 19 मार्च 2006

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-370609एन), 01 मार्च 2006

सूबेदार जनक सिंह (जेसी-370613डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

एस.पी. शर्मा

अवर सचिव

सं. 383, दिनांक 29 जून 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)

आईसी सं., नाम, आर्म एवं सब्सटैंटिव तिथि

30404 सतीश सिंह, आर्टी--16 दिसम्बर 2004

30557 एम एन नाथ, आर्टी--16 दिसम्बर 2004

35107 यू डब्ल्यू पाटिल, एएससी--16 दिसम्बर 2004

35562 दिलीप कुमार, आर्टी--16 दिसम्बर 2004

35995 डी वी सहारन, इन्फैन्ट्री --09 जून 2005

37336 एस एस संगवान, इन्फैन्ट्री--01 मई 2005

38158 आर के श्रीखण्डे, आर्टी--09 जून 2005

38395 अर्जुन सिंह, आर्टी--22 दिसम्बर 2005

39835 गजान्तर हुसैन, इंजीनियर्स--13 जून 2005

अजय गोयल

उप निदेशक

एमएस-8ए

सं. 384, दिनांक 29 जून 2006---राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना	
स्थायी कमीशन	
ले. से कैप्टन	
आईसी सं., नाम एवं आर्म	
51764 दिग्विजय सिंह सुमल, इन्फैन्ट्री	---
56169 सन्दीप सिंह सिधू, ईएमई	---
56170 प्रीतपाल सिंह, इंजीनियर्स	---
56171 शिव मंगल सिंह, सिग्नल्स	---
56172 संदीप मेहरा, सिग्नल्स	---
56192 कमलेश सिंह बिष्ट, इंजीनियर्स	---
56224 मोहित चतुर्वेदी, एसी	---
58988 भूपेन्द्र कुमार, आईसी	---
59000 श्रेयाश नितिन मेहता, आईसी	---
59042 बिरांचि नारायण नायक, इन्फैन्ट्री	---
60943 तरुण महाजन, ईएमई	---
59418 मोहित बदौनी मल, एओसी	---
59798 आशीष सामांत्रै, आर्टी	---
60843 श्रीनिवासन विक्रम चेरियन, इन्फैन्ट्री	---
61108 जगत सिंह राठौर, मैक. इन्फैन्ट्री	---
61414 स्वरूप सिंह कुंतल, ईएमई	---
63312 रेकुलागुन्ता रवि, इंजीनियर्स	---
63287 अनिल देव सिंह जसरोटिया, आईसी	---
63291 गनगनगरि अशोक कुमार, आईसी	---
63338 वेंकट बाबा सी, आईसी	---
63363 उमेश प्रताप सिंह राठौर, आईसी	---
63728 शिव प्रताप सिंह चौहान, आईसी	---
63736 गौरव सूद, आईसी	---
63745 दिनेश शर्मा, आईसी	---
63759 संदिरेड्डी मोहन राव रमैय्या, आईसी	---

एससी-00373 मैथ्यू के ए. इन्फैन्ट्री

59215 अजित सिंह तंवर, आर्टी

53613 मनोज शर्मा, इन्फैन्ट्री

55274 राजेश शर्मा, आर्टी

56405 अखिल मेन्डे, इन्फैन्ट्री

56461 सुमित शाह, इन्फैन्ट्री

सेकण्ड ले. से लेफ्टिनेन्ट

आई सी न. नाम एवं आर्म

53613 मनोज शर्मा, इन्फैन्ट्री

54034 जगत सिंह, एसी

अल्प सेवा आयोग

ले. से कैप्टन

डब्ल्यू एस सं., नाम एवं आर्म

00736 रूपिन्दर कौर, सिग्नल्स

00737 हन्ना पालोस, सिग्नल्स

00738 अमनदीप कौर, सिग्नल्स

00743 मोनिका भार्गव, ईएमई

00746 फ्रांसिस चेरियल करोलिन राज जोसफ, सिग्नल्स

00747 पूनम सावंत, सिग्नल्स

00748 डी कोस्टा एलसि, इंजीनियर्स

00751 पी वी पुनीता, ईएमई

00754 दीपिका मल्होत्रा, ईएमई

00756 सावंत धनश्री सम्पतराव, इंजीनियर्स

00757 मेडिडी श्रीविद्या, ईएमई

00758 पाण्डे नन्दिनी रामाचन्द्रा, ईएमई

00759 आरती, ईएमई

00761 कटकवार शिबानी जयंत, ईएमई

00762 गुप्ता दीपशिखा स्वरूप, इंजीनियर्स

00765 जोशी दीप्ती सुधाकर, इंजीनियर्स

00766 मुंडले कीर्ति किशोर, ईएमई

00767 देशमुख शीतल सतीश चन्द्रा, ईएमई

00769 शीतल लाड, इंजीनियर्स

00772 अंशू देव सिंह, ईएमई

00774 शर्मा सपना विरेन्द्रा मोहन, सिग्नल्स

00777 खटिंग वैशाली एकनाथराव, सिग्नल्स

00779 वैध्या कुमारी, सिग्नल्स

00781 अर्चना गुसाई, सिग्नल्स

---16 दिसम्बर 2004

---11 दिसम्बर 2003

--14 जनवरी 2000

---19 दिसम्बर 1997

--04 मई 2004

--09 मई 2001

--10 जून 1997

--09 दिसम्बर 1997

--06 नवम्बर 2003

--12 जून 2003

--13 जून 2003

--11 दिसम्बर 2003

--10 जून 2004

--16 दिसम्बर 2004

--14 जून 2005

--13 दिसम्बर 2005

00782 अंजू तिवारी, सिग्नल्स
 00784 पचूंडे रचना प्रकाश, सिग्नल्स
 00785 सुरभि शर्मा, इंजीनियर्स
 00786 प्रियंका, इंजीनियर्स
 00787 वी दीपा रेड्डी, सिग्नल्स

--08 मार्च 2006

00545 सामिका शिवरन, एएससी
 00546 शोभा नायर एम पी, ईएमई
 00553 सीमा पाण्डे, ए ओ सी
 00554 अर्चना वत्स, एओसी
 00556 अंशू सक्सेना, सिग्नल्स
 00559 मनीषा नेगी, एओसी
 00561 मंजू शानवाल, एएससी
 00562 करुणा थपलियाल, आईसी
 00564 सुनीता रे, सिग्नल्स
 00565 स्वेता सिंह, इंजीनियर्स
 00566 सोनी कुडाचि, एएससी
 00574 सोनाली रथ, सिग्नल्स
 00576 सीमा डागर, इंजीनियर्स
 00580 अर्चना सिंह, ईएमई
 00586 दीपा बिष्ट, सिग्नल्स
 00587 ईशरत अहमद, एओसी
 00588 जतिन्दर कौर, एएससी
 00589 गुरप्रीत कौर गिल, आईसी
 00590 दीपाली सिन्हा, आईसी

--03 मार्च 2006

शिवराम बैरवा
 उप निदेशक
 एम एस-8सी

वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय

सं. 385, दिनांक 28 जून 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

1. मु.नि.नि. कार्यालय (एच ए एल), हैदराबाद के श्री भूकया राजाराम, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II को दिनांक 10 जनवरी 2006 (पूर्वाह) से मु.नि.नि. कार्यालय (एच ए एल), हैदराबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।
2. मु.नि.नि. कार्यालय, बंगलूर के श्री बी एन रामनाथ, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II को दिनांक 10 फरवरी 2006 (पूर्वाह) से मु.नि.नि.

कार्यालय (एच ए एल), हैदराबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।

3. टुकड़ी, अम्बाझारी के श्री एन ए मेशराम, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II को दिनांक 30 जनवरी 2006 (पूर्वाह) से वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय, मुख्यालय नई दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।
4. मु.नि.नि. कार्यालय, कोरापुट के श्री ए के बरुआ, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II को दिनांक 27 फरवरी 2006 (पूर्वाह) से मु.नि.नि. कार्यालय (एच ए एल), हैदराबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।
5. वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय, मुख्यालय नई दिल्ली के श्री बी बी एस चौहान, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II को दिनांक 23 फरवरी 2006 (पूर्वाह) से मु.नि.नि. कार्यालय कानपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।
6. अलिस्टा, बंगलूर के श्री पी आर विश्वनाथ, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II को दिनांक 20 फरवरी 2006 (पूर्वाह) से मु.नि.नि. कार्यालय, नासिक में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।
7. अलिस्टा, बंगलूर के श्री पी पी सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II को दिनांक 10 जनवरी 2006 (पूर्वाह) से अलिस्टा, बंगलूर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।
8. मु.नि.नि. कार्यालय, बंगलूर के श्री बी एम दिनकर बाबू, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II को दिनांक 13 जनवरी 2006 (पूर्वाह) से मु.नि.नि. कार्यालय, बंगलूर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।
9. मस्का, हैदराबाद के श्री एच के मोहनती, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II को दिनांक 12 जनवरी 2006 (पूर्वाह) से मस्का, हैदराबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।
10. मु.नि.नि. कार्यालय, किरकी के श्री पी वी अनंतनारायण, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II को दिनांक 08 फरवरी 2006 (पूर्वाह) से मु.नि.नि. कार्यालय, बंगलूर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।
11. मु.नि.नि. कार्यालय, नासिक के श्री के सुब्बा राव, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II को दिनांक 20 फरवरी 2006 (पूर्वाह) से मु.नि.नि. कार्यालय, बंगलूर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।
12. मु.नि.नि. कार्यालय, लखनऊ के श्री राहुल गुप्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II को दिनांक 20 फरवरी 2006 (पूर्वाह) से मु.नि.नि. कार्यालय, नासिक में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।
13. मु.नि.नि. कार्यालय (जी डब्ल्यू), हैदराबाद के श्री एम सी कलासाद, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II को दिनांक 15 मार्च 2006 (पूर्वाह) से मु.नि.नि. कार्यालय बंगलूर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।

वी सेतुमाधवन
 अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(ARMY BRANCH)

New Delhi, the 29th July 2006

No. 377, dated 26th June 2006.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

SPECIAL LIST

ARMOURED CORPS

(To be Naib Risaldar (RT))

Gireesh Chandra Pandey (JC-248686Y), 25 Sep 2004

Sanjay Kumar (JC-240687F), 25 Sep 2004

Yogesh Kumar Joshi (JC-240688K), 25 Sep 2004

Vinay Kumar Sharma (JC-241227M), 11 Jun 2005

Kulbir Singh Khatra (JC-241228P), 11 Jun 2005

Sukhwinder Singh (JC-241229X), 11 Jun 2005

Gurcharan Pal Singh (JC-241230A), 20 Aug 2005

Shiv Shankar Tripathi (JC-241401N), 26 Nov 2005

JOSE THOMAS

Under Secy.

No. 378, dated 29th June 2006.—The President is pleased to make the following appointments:—

(REGULAR ARMY)

(SPECIAL COMMISSION)

The undermentioned eight NCOs are granted Special Commission in the Arm/Service as shown against their name in the rank of Lt under AI 5/97 with effect from 10 Dec 2005 as per inter-seniority given below:—

Army No., Parent Arm, Name, SCO No. and Arm/Service allotted

✓ 9512700W AEC Ram Gopal Singh (SC-00494P), ASC

9512705P AEC Jitendra Singh Rana (SC-00495X), EME

15464852W AC Panchhi Ram (SC-00496A), AOC

9089477P Inf Sat Paul (SC-00497H), AOC

14809025L Int Corps Laxman Singh (SC-00498L), AOC

9512458M AEC Sri Vivek Kumar (SC-00499N), Arty

14406177N AAD Kuldeep Kumar Bhanot (SC-00500X), Arty

7431178M Int Corps VG Surya Prabha (SC-00501A), ASC

CHANDER SHEIKHAR

Lt Col
AMS-8B

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 379, dated 29th June 2006.—The President is pleased to make the following appointments:—

Shri Mahendra Singh as temporary SSO-I at CQA (T&C), Kanpur on probation for a period of one year w.e.f. 26 Apr 2005 (F/N).

Shri G Satyanarayana Sinha as temporary SSO-I at CQAE (GS, Kolkata on probation for a period of one year w.e.f. 30 Sep 2005 (F/N).

Shri Kanad Saha as temporary SSO-I at CQA (Met), Ichapur on probation for a period of one year w.e.f. 29 Aug 2005 (F/N).

Shri Ashok Kumar as temporary SSO-I at CQA (Met), Ichapur and will remain on probation for a period of one year w.e.f. 30 Jan 2006 (F/N).

Shri PC Jha has been appointed as temporary SSO-I at CQA (Met), Ichapur on probation for a period of one year w.e.f. 28 Dec 2005 (F/N).

Shri Neelapu Krishna Murthy as temporary SSO-I at CQA (Met), Ichapur on probation for a period of one year w.e.f. 19 Jan 2006 (F/N).

Shri Subir Roy Chowdhury as temporary SSO-I at CQA (Met), Ichapur on probation for a period of one year w.e.f. 27 Jan 2006 (F/N).

Shri Kameshwar Yadav as temporary SSO-I at SQAE (Met), Ichapur on probation for a period of one year w.e.f. 28 Nov 2005 (F/N).

Shri A Radhakrishnan as temporary SSO-I at SQAE (A), Secunderabad on probation for a period of one year w.e.f. 16 Jan 2006 (F/N).

Shri Sudiptamoy Chakraborty as temporary SSO-I at CQA (T & C), Kanpur on probation for a period of one year w.e.f. 21 Sep 2005 (F/N).

Dr. Gurmukh Das as temporary SSO-I at CQA (EE), Pune on probation for a period of one year w.e.f. 12 Jan 2006 (F/N).

Shri Satish Sambhappa Mungse as temporary SSO-I at CQA (A), Pune on probation for a period of one year w.e.f. 27 Jan 2006 (F/N).

Shri Prabhakar Bassula as temporary SSO-I at SQAE (A), Trichy on probation for a period of one year w.e.f. 27 Feb 2006 (F/N).

SUBHASH CHAND

Under Secy.

No. 380, dated 26th June 2006.—The President is pleased to extend the appointment of the following Grade 'C' Stenographers borne on the CSSS Cadre of Ministry of Defence as Private Secretary (Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS) in the same Ministry on ad-hoc basis for further

period mentioned against each or till regular officers become available or until further orders, whichever is earlier:—

Name of the Officer, From and To

Shri J.P. Mathur, 01.06.2006—31.12.2006

Shri Rajinder Prasad Sharma, 01.06.2006—31.12.2006

Shri Narendra Chadha, 01.06.2006—31.12.2006

Smt. Harvinder Chawla, 01.06.2006—31.12.2006

V. SARASWATHY
Dy. Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 381, dated 27th June 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Surinder Bahadur Singh (JC-225645X), 01 Oct 2005

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Kesh Bahadur Gurung (JC-419966H), 28 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sudarshan Prasad (JC-418623A), 20 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Anup Bir Lamba (JC-419967L), 28 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sawar Singh (JC-419968N), 01 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Rajendra Singh (JC-419595L), 17 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dil Bahadur Thapa (JC-419969W), 01 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub J Francis (JC-419718M), 01 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 20 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mevakhamba Singh (JC-419971N), 01 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Manowar Ali Khan (JC-419277F), 03 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Rampal Singh (JC-419547L), 01 Apr 2006*

Nb Sub Guru Dayal Singh (JC-419601N), 04 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

To be Substantive Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) Balbir Singh (JC-419262Y), 02 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar (Clerk) wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub (Clk) Ram Singh (JC-419279M), 06 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar (Clerk) wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub (Clk) Yashwant Singh (JC-419280F), 01 Mar 2006

Nb Sub (Clk) Pawan Chand (JC-419302P), 01 Mar 2006

To be Substantive Subedar (SKT)

Nb Sub (SKT) Bimal Singh Gurung (JC-418927X), 01 Oct 2005

To be Naib Subedar

Hav Paramjit Singh (14906418L now JC-420467A), 01 Feb 2006

Hav Bhajan Chand (14903580X now JC-420468H), 01 Feb 2006

Hav Sukhdev Singh (14901805W now JC-420469L), 01 Feb 2006

Hav Hari Om Singh (2988616W now JC-420470A), 08 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ramphal Singh (14906678W now JC-420471H), 01 Feb 2006

Hav Hem Raj (14905092N now JC-420472L), 27 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Samunder Singh Sheoran (14906822A now JC-420473N), 03 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Akhil Kumar Bhunia (14903442W now JC-420474W), 17 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Malkit Singh (14907340X now JC-420475Y), 09 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Karan Singh (14907003H now JC-420476F), 17 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ajmer Singh (14906429X now JC-420477K), 13 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Babu Ram (14905267L now JC-420478M), 10 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Dhari (14906812W now JC-420479P), 15 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav SP Palani Chami (14905052M now JC-420480K), 04 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Harphool Singh (14904931L now JC-420481M), 31 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Parbhat Singh (14906363M now JC-420482P), 01 Mar 2006

Hav Om Parkash (14908736N now JC-420483X), 03 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Chandra KR Deury (14906350P now JC-420484A), 07 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ummed Singh Gurjar (2981323H now JC-420485H), 17 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Man Singh (14905326M now JC-420486L), 01 Mar 2006

Hav Thangzalam Gangte (14906016N now JC-420487N), 17 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Parkash Chand Thakur (14906486Y now JC-420488W), 01 Mar 2006

Hav Birendra Singh (14907760X now JC-420489Y), 01 Mar 2006

Hav Prem Singh (14907949P now JC-420490N), 09 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ramji Singh (2981465A now JC-420491W), 20 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Gopal Singh (14905696M now JC-420492Y), 01 Apr 2006

Hav Amar Singh (14909627N now JC-420493F), 04 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Suresh Chand (14909125L now JC-420494K), 04 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Sunil Kumar (14906725H now JC-420441L), 13 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Vidya Lal (14906484N now JC-420442N), 13 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Radha Krishna Pillai T (14904447F now JC-420443W), 21 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Lala Ram (14905355F now JC-420444Y), 17 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Dadan Singh (14904909H now JC-420445F), 30 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Hem Bahadur Thapa (14905164M now JC-420446K), 29 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Kamal Rai (14905717X now JC-420447M), 05 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Jag Bahadur Gurung (14909217X now JC-420448P), 28 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Kuldip Singh (14906888W now JC-420449X), 17 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ashok Bahadur (14909521F now JC-420450M), 29 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Bhajan Singh (14909358M now JC-420451P), 02 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Balbir Singh (14908272F now JC-420452X), 01 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Purna Singh Gurung (14906952H now JC-420453A), 09 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Sawant Chandrakant Hindurao (14904948F now JC-420454H), 26 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav K Udhiratcha Mani (14910693H now JC-420455L), 17 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Amar Chandra Vidyarthi (14905896H now JC-420456N), 21 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Jagat Singh (14906809W now JC-420457W), 25 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Krishna Singh (14908498M now JC-420458Y), 25 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Chandra Shekhar (14909258F now JC-420459F), 21 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ravi Kumar (14905627W now JC-420460W), 23 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Bansi Lal Bishnoi (14909641A now JC-420461Y), 21 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Desh Raj (14905920N now JC-420462F), 17 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Resham Lal (14906287L now JC-420463K), 01 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Chob Singh (14909052K now JC-420464M), 21 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ramesh Chandra Bhatt (14910008M now JC-420465P), 21 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Shirke Mohan Bajirao (14907005N now JC-420466X), 09 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

(ARMOURED CORPS)

To be Nb Ris

Dfr Bhagwan Singh (No. 01074329P now JC-241437M), 01 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Satya Deo (No. 01074363P now JC-241461H), 21 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Binod Kumar Jha (No. 01077566K now JC-241482Y), 18 Oct 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 16 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Shishu Pal Singh (No. 01071465A now JC-241483F), 07 Oct 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 21 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Akhilsh Kumar Singh Gautam (No. 01077436F now JC-241494N), 04 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Mahendra Medhi (No. 01068169K now JC-241497F), 26 Oct 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Mohd Saddique Khan (No. 01078923N now JC-241498K), 04 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Amanulla Khan (No. 01078933X now JC-241499M), 04 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr A Rama Doss (No. 01069194P now JC-241501Y), 22 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Radha Raman Mandal (No. 01069555H now JC-241512L), 02 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Man Singh (No. 01069593Y now JC-241513N), 06 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Chandeshwar Singh (No. 01070632Y now JC-241514W), 05 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Mangay Singh (No. 01069961H now JC-241515Y), 01 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr M Malar Maran (No. 01068942L now JC-241516F), 01 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Pradip Kumar Mangotra (No. 01076874X now JC-241518M), 03 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Babu Lal (No. 01077535K now JC-241519P), 24 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Jagjeet Singh (No. 01077188W now JC-241520K), 16 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 06 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Vinoda Nand Singh (No. 01069059F now JC-241523X), 01 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr P Dennisen (No. 01072211P now JC-241524A), 14 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Devadasan Kallavetti (No. 01072203W now JC-241525H), 14 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Harjap Singh (No. 01067178Y now JC-241528W), 01 Dec 2005

Dfr Raj Kumar (No. 01071384A now JC-241529Y), 01 Dec 2005

Dfr Subhash Namdeo Jamnik (No. 01069604A now JC-241530N), 01 Dec 2005

Dfr Malkiat Singh (No. 01077775F now JC-241533F), 02 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Vimalan V. R. (No. 01072225P now JC-241534K), 07 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Udaya Kumar O (No. 01072220W now JC-241535M), 07 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Mewa Singh (No. 01073453K now JC-241532Y), 06 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Balaji (No. 01070860F now JC-241537X), 26 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Mukund Kumar Mishra (No. 01068963F now JC-241542H), 24 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Mangra Hemrom (No. 01069675F now JC-241547F), 04 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Sukhbir Singh (No. 01078478A now JC-241553P), 03 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 11 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Pratum Kumar Deka (No. 01069813X now JC-241555A), 04 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Sawaliya Ray (No. 01069979Y now JC-241558N), 04 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr P. Jogi Naidu (No. 01075169M now JC-241560L), 30 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Rukmanand (No. 01069474H now JC-241561N), 31 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Jai Shankar Dubey (No. 01070330M now JC-241572A), 04 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Wilson Bara (No. 01069134A now JC-241574L), 15 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Satendra Kumar Bana (No. 01070222H now JC-241576W), 02 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Bhojvir Singh (No. 01074732F now JC-241577Y), 30 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Daljit Singh (No. 01079500M now JC-241578F), 30 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Gajendra Singh (No. 01071696W now JC-241579K), 30 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 15 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Kripal Singh (No. 01072262H now JC-241580Y), 30 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 15 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Dinesh Kumar Pal (No. 01070384N now JC-241582K), 02 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Guman Singh (No. 01071110P now JC-241583M), 05 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Vidya Ratna Dwivedi (No. 01070250P now JC-241584P), 05 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Gopal Singh (No. 01077754L now JC-241586A), 01 Jan 2006

Dfr Satpal Singh (No. 01078578L now JC-241587H), 05 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Mir Jahangir Ali (No. 01073799N now JC-241589N), 19 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Satish Kumar Singh (No. 01070364A now JC-241592N), 18 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Kanwarpal Singh (No. 01080289P now JC-241593W), 12 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Thombre Hanumant Tukaram (No. 01073131K now JC-241596K), 12 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

Dfr Bhag Chand (No. 01081183P now JC-241599X),
12 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Ramesh Chandra (No. 01081047Y now JC-
241600F), 12 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Govind Chandra Sahu (No. 01067892Y now JC-
241601K), 18 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 20 Nov 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Mohinder Singh (No. 01070830K now JC-241611N),
09 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Kashmir Singh (No. 01071524F now JC-241612W),
09 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Deo Nayak Upadhyay (No. 01069132P now JC-
241616M), 12 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Chatter Pal Singh (No. 01076934F now JC-
241617P), 12 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Rudramay Choudhuri (No. 01071135F now JC-
241618X), 09 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Ramayan Prasad Gupta (No. 01069405M now JC-
241447W), 05 Aug 2005

Dfr Ramdeo Jat (No. 01074759Y now JC-241551K),
05 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Surendra Nath Swain (No. 01070703P now JC-
241552M), 27 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Dilbag Singh (No. 01070005M now JC-241585X),
05 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Birendera Singh (No. 01071796F now JC-241590H),
20 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Rajender Prasad (No. 01074105P now JC-241594Y),
25 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Brijnandan (No. 01071734F now JC-241597M),
14 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Suresh Pathak (No. 01072548X now JC-241598P),
20 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Mahendra Singh Bhdaoriya (No. 01073505P now
JC-241608N), 20 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 08 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Kishan Lal Balai (No. 01071917X now JC-
241610L), 24 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Narendra Kumar (No. 01073101M now JC-
241614F), 20 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Rajni Kanta Medhi (No. 01071779F now JC-
241628F), 20 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Vijay Singh (No. 01076651A now JC-241642N), 02
Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr M Vishwanathan (No. 01074011X now JC-
241643W), 11 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Ram Mehar Singh (No. 01074359M now JC-
241644Y), 17 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 23 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Ravinder Singh (No. 01081079F now JC-241646K),
16 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Birendar Draon (No. 01072256P now JC-241648P),
11 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 18 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Lakshmanan Diakkaran (No. 01071515A now JC-
241650M), 11 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 22 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Mohammad Phool Hassan (No. 01072850W now JC-
241651P), 24 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 29 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Vinayan KP (No. 01071927F now JC-241652X),
01 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Ragubir Singh (No. 01080934Y now JC-241653A),
03 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Rukam Pal (No. 01071325N now JC-241655L),
27 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 05 Feb 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Rag Kumar Mahli (No. 01071792L now JC-
241658Y), 01 Mar 2006

Dfr Harnath Singh (No. 01073389X now JC-241659F),
01 Mar 2006

Dfr Shish Ram (No. 01070757W now JC-241660W),
01 Mar 2006

Dfr Mohan Lal (No. 01077789F now JC-241661Y),
01 Mar 2006

Dfr KNK Yashawant (No. 01070529N now JC-241662F),
03 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Sukhvair Singh (No. 01070466W now JC-241663K),
01 Mar 2006

Dfr Ram Pal (No. 01070683M now JC-241664M),
01 Mar 2006

Dfr Mohri Lal Jhuthriya (No. 01071986N now JC-
241665P), 03 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Susanta Kumar Ghosh (No. 01071871A now JC-
241666X), 03 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Purushottam (No. 01071803M now JC-241667A),
01 Mar 2006

Dfr Chakra Pani Gautam Bhanji (No. 01070545L now
JC-241669L), 02 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Ashok Singh Tomar (No. 01077119A now JC-
241670A), 02 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances).

Dfr Shram Lal (No. 01072277L now JC-241545W),
14 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Kanhaiya Ojha (No. 01069201A now JC-241554X),
18 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Mam Chand (No. 01071783K now JC-241556H),
22 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Mundhe Narayan Janardhan (No. 15466596L now
JC-241559W), 24 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Mohinder Singh (No. 01070792Y now JC-241569A),
12 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Amrik Singh (No. 01071454N now JC-241570P),
12 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Harbhajan Singh (No. 01071708A now JC-
241581F), 30 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 20 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Rattan Singh (No. 01076898F now JC-241588L),
12 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Shyambir Singh (No. 01075634N now JC-241591L),
17 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Dfr Ram Darshan Singh (No. 01070716M now JC-241595F), 12 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Shyamal Chatterjee (No. 01071012P now JC-241602M), 12 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Unni Krishna Pillai S (No. 01071036Y now JC-241603P), 12 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Bodam Pudi Venkateswara Rao (No. 01071410W now JC-241604X), 12 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Baldev Singh (No. 01077344P now JC-241605A), 13 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Veer Singh (No. 01077978L now JC-241606H), 13 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Gopal Singh (No. 01069767N now JC-241607L), 20 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 04 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Deo Karan Singh (No. 01071081L now JC-241609W), 13 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 18 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Jha Dharmendra Surendra (No. 01071639P now JC-241615K), 17 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Rajan PK (No. 01071614H now JC-241624L), 28 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Ranjit Singh Kondal (No. 01069853Y now JC-241625N), 22 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Ravindra Kumar Kulhari (No. 01075370X now JC-241626W), 02 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Chhotu Ram (No. 01070882A now JC-241631F), 22 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 08 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Achal Singh Purohit (No. 01076093K now JC-241632K), 08 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 15 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Balbir Singh (No. 01067217M now JC-241633M), 01 Feb 2006

Dfr Bhudev Singh (No. 01076528F now JC-241634P), 01 Feb 2006

Dfr Shish Ram (No. 01074741H now JC-241635X), 01 Feb 2006

Dfr Venkatesh M (No. 01072238M now JC-241636A), 01 Feb 2006

Dfr Ranjit Singh (No. 01079541W now JC-241637H), 01 Feb 2006

SPECIAL LIST

(To be Substantive Risaldar)

Nb Risaldar Pandit Tribhuan Narayan Pandey (JC-236747N), 10 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 13 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Risaldar Pandit Rajeshwar Pathak (JC-236748W), 16 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 13 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Risaldar Pandit Shashi Dhar Mishra (JC-236749Y), 10 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 13 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Risaldar Pandit Arvind Pandey (JC-236750N), 20 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 13 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Risaldar Pandit Survash Kumar Pandey (JC-236751W), 13 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 13 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Risaldar Pandit Arun Shanker Shukla (JC-418579F), 11 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 13 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

JOSE THOMAS
Under Secy.

No. 382, dated 26th June 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Churiya Ram (JC-260873Y), 01 Oct 2003

Nb Sub Laxmi Narain (JC-262567H), 17 May 2004/01 Nov 2003*

Nb Sub S Seenivasah (JC-263597M), 19 Dec 2003/02 Nov 2003*

Nb Sub Ram Kumar (JC-261111X), 06 Nov 2004/01 Dec 2003*

Nb Sub Gopa Kumar S (JC-263580Y), 28 Apr 2004/17 Dec 2003*

Nb Sub Suraj Nath Pandey (JC-260856Y), 21 Jan 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub Rameshwar Dayal (JC-263341K), 05 Apr 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub Tulsi Ram (JC-263502F), 13 Apr 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub Virendra Singh (JC-263788F), 18 Mar 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Padyal Manohar Shivram (JC-263584P), 16 Mar 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Gobinda Sur (JC-264283X), 10 May 2004/21 Feb 2004*

Nb Sub Manjit Singh (JC-263388P), 31 Jan 2005/08 Feb 2004*

Nb Sub Daljit Singh (JC-264084K), 29 Mar 2004/20 Feb 2004*

Nb Sub Rajender Prasad (JC-260836L), 09 Mar 2004/10 Feb 2004*

Nb Sub I Savari Muthu (JC-263596K), 23 Mar 2004/20 Feb 2004*

Nb Sub Prem Pal Singh (JC-261323H), 27 Mar 2004/23 Feb 2004*

Nb Sub Ramendra Nath Das (JC-264107A), 17 Apr 2004/29 Feb 2004*

Nb Sub Vishwanath Yadav (JC-259141W), 22 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Banwari Lal (JC-260802X), 08 May 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Harish Chand (JC-261523X), 26 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Vinod Kumar (JC-263633M), 07 Apr 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Sampurna Nand (JC-264046N), 07 Apr 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Sukhdev Singh (261637K), 12 May 2004/03 Mar 2004*

Nb Sub Asit Sarkar (262347Y), 01 Apr 2004

Nb Sub Vikramaditya (JC-262344L), 28 Mar 2004/15 Mar 2004*

Nb Sub Raj Singh (JC-261647N), 01 Apr 2004

Nb Sub Satyanarain Yadeo (JC-260750M), 06 May 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Mani Balan P (JC-261581H), 03 May 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Sushil Horo (JC-261005Y), 06 Apr 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Venkat (JC-262943L), 01 Apr 2004

Nb Sub Lal Bahadur Singh (JC-263439X), 28 Apr 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Sahee Ram (JC-262903K), 05 Apr 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Tapan Kumar (JC-262603H), 01 Apr 2004

Nb Sub Master Gawade Ashok Babaji (JC-263131K), 01 Apr 2004

Nb Sub Ghorpade Ramchandra Anandrao (JC-264112L), 10 Apr 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Tari Ram (JC-263926X), 01 Apr 2004

Nb Sub Karam Singh (JC-264161N), 01 Apr 2004

Nb Sub Gurmukh Singh (JC-264742L), 06 Jun 2004/01 Apr 2004

Nb Sub Karan Singh (JC-261868A), 25 Apr 2004/15 Apr 2004*

To be Nb Sub

Hav Ved Pal (8030866F now JC-268811N), 15 Nov 2005/01 Sep 2005*

Hav Nataraju H (14492867Y now JC-268812W), 02 Jan 2006/01 Sep 2005*

Hav Bijender Singh (14477593F now JC-268813Y), 16 Dec 2005/13 Oct 2005*

Hav Punvasi Yadav (14482310Y now JC-268814F), 22 Nov 2005/14 Oct 2005*

Hav Jarnail Singh (14481996Y now JC-268815K), 22 Nov 2005/20 Oct 2005*

Hav Balkar Singh (14476096L now JC-268816M), 10 Dec 2005/30 Oct 2005*

Hav KH Indra Kumar Singha (14484414Y now JC-268817P), 14 Jan 2006/01 Nov 2005*

Hav Birbal Ram Khichad (14366875L now JC-268818X), 30 Dec 2005/05 Nov 2005*

Hav Dhameshar Ram (14363440X now JC-268819A), 06 Dec 2005/17 Nov 2005*

Hav Santokh Singh (14478716P now JC-268820P), 29 Jan 2006/30 Nov 2005*

Hav Subhash Singh (14471046W now JC-268821X), 12 Jan 2006/02 Dec 2005*

BHM Ajit Ram (15100222W now JC-268822A), 16 Dec 2005

Hav Dalip Singh Yadav (15105488M now JC-268823H), 11 Feb 2006/01 Jan 2006*

BHM MD Tajuddin (14474253N now JC-268824L), 01 Jan 2006

Hav Ghan Shayam Joshi (14477992L now JC-268825N), 14 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav Ashok Kumar (14374043Y now JC-268826W), 01 Feb 2006

Hav Ramalingam P (14491727A now JC-268871H), 17 Feb 2006/01 Sep 2005*

Hav Hari Chand Choudhary (14353191W now JC-268872L), 28 Dec 2005/31 Oct 2005*

Hav Rajendra Singh (14476107M now JC-268873N), 31 Dec 2005/02 Nov 2005*

Hav Ravindra Kumar Singh (14481069L now JC-268874W), 07 Feb 2006/07 Nov 2005*

BHM Ashok Kumar Mishra (14360005X now JC-268875Y), 14 Feb 2006/26 Nov 2005*

Hav Shatrughan Singh (14484497P now JC-268876F), 14 Feb 2006/26 Nov 2005*

Hav Soman B (14479049Y now JC-268877K), 25 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Ramesh Lal (14479777Y now JC-268878M), 27 Jan 2006/01 Dec 2005*

BHM Paramjit Singh (3383412Y now JC-268879P), 07 Feb 2006/01 Dec 2005*

Hav Radhey Shyam (14389459N now JC-268880K), 01 Feb 2006/11 Dec 2005*

Hav Goutam Porey (14370287P now JC-268881M), 25 Jan 2006/21 Dec 2005*

Hav Naresh Kumar (14481447Y now JC-268882P), 02 Feb 2006/01 Jan 2006*

BHM Manohar Lal (14479431P now JC-268883X), 14 Feb 2006/01 Jan 2006*

BHM Shiyorama Ram (14465835M now JC-268884A), 17 Feb 2006/30 Jan 2006*

RHM Om Prakash Bhagat (14490586K now JC-268885H), 01 Feb 2006

Hav Abdesb Kumar (14360281A now JC-268886L), 01 Feb 2006

RHM Hoshiyar Singh Yadav (15110700H now JC-268887N), 20 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Amarjit Singh (14384922A now JC-268888W), 21 Feb 2006/31 Dec 2005*

RHM Param Chand (15116570F now JC-268889Y), 27 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Surajpal Singh (15111098A now JC-268890N), 25 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Basaling Pattekar (14401550Y now JC-268891W), 23 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Joga Singh (15101176Y now JC-268892Y), 21 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM V Appa Rao (15122783L now JC-268893F), 23 Jan 2006/31 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef)

CORPS OF SIGNALS

To be Substantive Subedar Major (Y of S)

Sub Bhawani Singh Shekhawat (JC-367879X), 01 Jan 2006

Sub Bir Bahadur Singh (JC-367882X), 16 Jan 2006

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

To be Substantive Subedar Major (F of S)

Sub Hukam Chand Sharma (JC-225341A), 02 Jan 2006

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Surendra Kumar (JC-223786M), 10 Jan 2006

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

To be Substantive Subedar Major (OP Ciph)

Sub Ramesh Chandra Biswal (JC-368139P), 01 Nov 2005

Sub Ram Bahadur Singh (JC-368427F), 01 Feb 2006

To be Substantive Subedar Major (Clk GD)

Sub Suseendran KS (JC-367315P), 01 Feb 2006

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Niranjan Halder (JC-370432L), 06 Oct 2005

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Sub Salik Singh (JC-370453F), 01 Dec 2005

Sub Yashwant Singh (JC-370457X), 03 Dec 2005

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Sub Durgesh Prasad Singh (JC-370463L), 08 Dec 2005

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Sub Junul Mundu (JC-370464N), 01 Dec 2005

Sub Bana Bihari Mishra (JC-369838M), 23 Jan 2006

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Ashwani Kumar Srivastava (JC-369941X), 08 Jan 2006

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Bharat Singh (JC-369982F), 10 Jan 2006

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Sub R P Chaudhary (JC-370436F), 30 Jan 2006

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Biswanath Chakraborty (JC-370461A), 01 Jan 2006

Sub Dharam Pal (JC-370470F), 07 Jan 2006

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Mithileshwar Choudhary (JC-370582F), 10 Jan 2006

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Nabin Kumar Ambastha (JC-370593N), 01 Feb 2006

Sub Arjun Behera (JC-370599P), 01 Feb 2006

Sub Adurti RKP Satyanarayana (JC-370602K), 01 Mar 2006

Sub Dharam Bir Singh (JC-370608L), 19 Mar 2006

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Hoshiyar Singh (JC-370609N), 01 Mar 2006

Sub Janak Singh (JC-370613W), 01 Mar 2006

S. P. SHARMA
Under Secy.

No. 383, dated 29th June 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Substantive Col (By Time Scale)

IC-30404X Lt Col Satish Singh, Arty—16 Dec 2004

IC-30557F Lt Col MN Nath, Arty—16 Dec 2004

IC-35107N Lt Col UW Patil, ASC—16 Dec 2004

IC-35562W Lt Col Dilip Kumar, Arty—16 Dec 2004

IC-35995N Lt Col DV Saharan, Inf—09 Jun 2005

IC-37336X Lt Col SS Sangwan, Inf—01 May 2005

IC-38158M Lt Col RK Shrikhande, Arty—09 Jun 2005

IC-38395W Lt Col Arjun Singh, Arty—22 Dec 2005

IC-39835L Lt Col Ghazanfar Hussain, Engrs—13 Jun 2005

AJAY GOEL

Dy Dir

MS-8A

No. 384, dated 29th Jun 2006.—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

IC No., Name and Arm

51764 Digvijay Singh Sumal, Inf

—19 Dec 1997

56169 Sandeep Singh Sidhu, EME

56170 Preetpal Singh, Engrs

56171 Shiv Mangal Singh, Sigs

56172 Sandeep Mehra, Sigs

—09 May 2001

56192 Kamlesh Singh Bisht, Engrs

56224 Mohit Chaturvedi, AC

—08 Nov 2003

58988 Bhupender Kumar, AEC

59000 Shreyash Nitin Mehta, AEC

59042 Biranchi Narayan Nayak, Inf

—12 Jun 2003

60943 Tarun Mahajan, EME

—13 Jun 2003

59418 Mohit Badoni, AOC

—11 Dec 2003

59798 Ashish Samantaray, Arty

—10 Jun 2004

60843 Srinivasan Vikram Cherian, Inf

61108 Jagat Singh Rathore, Mech, Inf

61414 Swaroop Singh Kuntal, EME
 63312 Rekulagunta Ravi, Engrs
 —16 Dec 2004

63287 Anil Dev Singh Jasrotia, AEC
 63291 Gangangari Ashok Kumar, AEC
 63338 Venkata Baba C, AEC
 63363 Umesh Pratap Singh Rathore, AEC
 —14 Jun 2005

63728 Shiv Pratap Singh Chauhan, AEC
 63736 Gaurav Sood, AEC
 63745 Dinesh Sharma, AEC
 63759 Sandireddy Mohan Rao Ramaiah, AEC
 —13 Dec 2005

SC No., Name and Arm]
 00373 Mathew KA, Inf
 —16 Dec 2004

IC No., Name and Arm
 IC-59215 Ajit Singh Tanwar, Arty
 —11 Dec 2003

53613 Manoj Sharma, Inf
 55274 Rajesh Sharma, Arty
 —14 Jan 2000

56405 Akhil Mendhe, Inf
 56461 Sumit Shah, Inf
 —04 May 2004

2nd Lt to be Lt
 IC No., Name and Arm
 53613 Manoj Sharma, Inf
 —10 Jun 1997

54034 Jagat Singh, AC
 —09 Dec 1997

SHORT SERVICE COMMISSION

Lt to be Capt
 WS No., Name and Arm
 00736 Rupinder Kaur, Sigs
 00737 Hanna Paulose, Sigs
 00738 Amandeep Kaur, Sigs
 00743 Monika Bhargava, EME
 00746 Francis Cheryl Caroline Raj Joseph, Sigs

00747 Poonam Sawant, Sigs
 00748 D'Costa Elsie, Engrs
 00751 PV Puneeta, EME
 00754 Deepika Malhotra, EME
 00756 Sawant Dhanshri Sampatrao, Engrs
 00757 Medidi Sreevidya, EME
 00758 Pandey Nandini Ramachandra, EME
 00759 Arti, EME
 00761 Katakwar Shibanijayant, EME
 00762 Gupta Deepshikha Har Swaroop, Engrs
 00765 Joshi Dipti Sudhakar, Engrs
 00766 Mundle Kirti Kishore, EME
 00767 Deshmukh Shital Satish Chandra, Engrs
 00769 Sheetal Lad, Engrs
 00772 Anshu Dev Singh, EME
 00774 Sharma Sapna Virendra Mohan, Sigs
 00777 Khating Vaishali Eknathrao, Sigs
 00779 Vidhya Kumari, Sigs
 00781 Archana Gusain, Sigs
 00782 Anju Tiwari, Sigs
 00784 Pachunde Rachana Prakash, Sigs
 00785 Surabhi Sharma, Engrs
 00786 Priyanaka, Engrs
 00787 V Deepa Reddy, Sigs
 —08 Mar 2006

00545 Samika Shiviran, ASC
 00546 Shobha Nair MP, EME
 00553 Seema Pandey, AOC
 00554 Archana Vats, AOC
 00556 Anshu Saxena, Sigs
 00559 Manisha Negi, AOC
 00561 Manju Shanwal, ASC
 00562 Karuna Thapliyal, AEC
 00564 Sunita Ray, Sigs
 00565 Swetha Singh, Engrs
 00566 Soni Kudachi, ASC
 00574 Sonali Rath, Sigs
 00576 Seema Dagar, Engrs
 00580 Archana Singh, EME

00586 Deepa Bisht, Sigs
 00587 Ishrat Ahmed, AOC
 00588 Jatinder Kaur, ASC
 00589 Gurpreet Kaur Gill, AEC
 00590 Dipali Sinha, AEC

—03 Mar 2006

SHIV RAM BAIRWA
 Dy. Dir.
 MS-8C

DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE

No. 385, dated 28th June 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

Shri Bhukya Rajaram, Senior Scientific Officer Grade-II of OCRI (HAL), Hyderabad as Senior Scientific Officer Grade-I in OCRI (HAL), Hyderabad w.e.f. 10 Jan 2006 (F/N).

Shri BN Ramnath, Senior Scientific Officer Grade-II of OCRI, Bangalore as Senior Scientific Officer Grade-I in OCRI (HAL), Hyderabad w.e.f. 10 Feb 2006 (F/N).

Shri NA Meshram, Senior Scientific Officer Grade-II of Dett. Ambajhari, as Senior Scientific Officer Grade-I in HQ, DGAQA, New Delhi w.e.f. 30 Jan 2006 (F/N).

Shri AK Barua, Senior Scientific Officer Grade-II of OCRI, Koraput as Senior Scientific Officer Grade-I in OCRI (HAL), Hyderabad w.e.f. 27 Feb 2006 (F/N).

Shri VBS Chauhan, Senior Scientific Officer Grade-II of HQ, DGAQA, New Delhi as Senior Scientific Officer Grade-I in OCRI, Kanpur w.e.f. 23 Feb 2006 (F/N).

Shri PR Vishwanath, Senior Scientific Officer Grade-II of ALISDA, Bangalore as Senior Scientific Officer Grade-I in OCRI, Nasik w.e.f. 20 Feb 2006 (F/N).

Shri PP Singh, Senior Scientific Officer Grade-II of ALISDA, Bangalore as Senior Scientific Officer Grade-I in ALISDA, Bangalore w.e.f. 10 Jan 2006 (F/N).

Shri BM Dinkar Babu, Senior Scientific Officer Grade-II of OCRI, Bangalore as Senior Scientific Officer Grade-I in OCRI, Bangalore w.e.f. 13 Jan 2006 (F/N).

Shri HK Mohanty, Senior Scientific Officer Grade-II of MSQAA, Hyderabad as Senior Scientific Officer Grade-I in MSQAA, Hyderabad w.e.f. 12 Jan 2006 (F/N).

Shri PV Ananthanarayanan, Senior Scientific Officer Grade-II of OCRI, Kirkee as Senior Scientific Officer Grade-I in OCRI, Bangalore w.e.f. 08 Feb 2006 (F/N).

Shri K Subba Rao, Senior Scientific Officer Grade-II of OCRI, Nasik as Senior Scientific Officer Grade-I in OCRI, Bangalore w.e.f. 20 Feb 2006 (F/N).

Shri Rahul Gupta, Senior Scientific Officer Grade-II of OCRI, Lucknow as Senior Scientific Officer Grade-I in OCRI, Nasik w.e.f. 20 Feb 2006 (F/N).

Shri MC Kalasad, Senior Scientific Officer Grade-II of OCRI, (GW), Hyderabad as Senior Scientific Officer Grade-I in OCRI, Bangalore w.e.f. 15 Mar 2006 (F/N).

RAMJI LAL
 Under Secy.